



जागरण

स्वच्छ भारत यात्रा आई, खाद्य पदार्थों के प्रति करेगी जागरूक

Dated: - 20th January 2019 (Sunday)

E-Paper

मेरठ, जेएनएन। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा देशवासियों को शुद्ध एवं गुणवत्तायुक्त भोजन के प्रति जागरूक करने के लिए ईट राइट इंडिया आंदोलन के तहत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत यात्रा (लौह यात्रा) शनिवार को दोपहर बाद 3:30 बजे मेरठ पहुंची। 44वीं वाहिनी पीएसी हापुड रोड पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया।

इंडिया गेट पर संपन्न होगी

स्वच्छ भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत 50 सदस्यीय दल यात्रा पर है। इसमें 35 सदस्य साइकिल के जरिए यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा जम्मू-कश्मीर के लेह-लद्दाख से 16 अक्टूबर 2018 से शुरू हुई, जो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित अनेक जनपदों से होते हुए 27 जनवरी को नई दिल्ली इंडिया गेट पर समाप्त होगी।



जागरूकता कार्यक्रम हुआ

यात्रा के स्वागत के दौरान भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के ज्वाइंट डायरेक्टर दिनेश शर्मा, सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन अशोक शर्मा की मौजूदगी में बैटन ट्रांसफर व प्रमाण पत्र वितरण के साथ एनसीसी कैडेट्स व छात्र जागरूकता कार्यक्रम हुआ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अभिहित अधिकारी अर्चना धीरान ने बताया कि 45 प्रकार के खाद्य

पदार्थों की जानकारी दी जा रही है। यात्रा के साथ मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन और ऑडियो-वीडियो वैन चल रही हैं। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन में खाद्य पदार्थों की मौके पर ही टेस्टिंग कर नतीजे बताए जा रहे हैं। वहीं, दूसरी वैन में एलईडी स्क्रीन पर खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

आज मेडिकल कॉलेज से निकलेगी प्रभात फेरी

20 जनवरी सुबह 9.30 बजे मेडिकल कॉलेज कैंपस से चौधरी चरण सिंह विवि तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसमें बैंड के साथ स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे सीसीएसयू के बृहस्पति भवन में बेहतर खाद्य पदार्थों के सेवन संबंधी जागरूकता कार्यक्रम और 'ईट राइट' मेला, क्विज व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मेले में शुद्ध खाद्य पदार्थों के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे। शाम पांच बजे शॉपरिक्स मॉल में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

21 को रवाना होगी साइकिल रैली

पं. दीन दयाल उपाध्याय प्रबंधन कॉलेज मेरठ कैंट से एनसीसी कैडेट्स की साइकिल रैली 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह बेगमपुल, भैंसाली बस अड्डे होते हुए एनएच-58 स्थित सतगुरु ढाबा को प्रस्थान करेगी। जहां 11.30 बजे खाद्य पदार्थों का सेवन संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ ही यह यात्रा रवाना हो जाएगी।